

Reg. Office Address:

Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005GOI132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in, Tel: 011-23061325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

HPL/BS/Stx/2024-25

Dated: 14.08.2024

To,
Manager,
Listing Department
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai: 400 001

To,
Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Plot No. C/1,G Block,
Bandra Complex, Bandra (E),
Mumbai -400 051

Script Code: 543242

Symbol: HEMIPROP

Sub: Newspaper Publication

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Financial Results (standalone) of the Company for the period ended on June 30, 2024, published on Wednesday i.e August 14, 2024 in the newspaper namely, Financial Express(English) and Jansatta (For Hindi).

Thanking you,

For **Hemisphere Properties India Limited**

Lubna
Company Secretary & Compliance Office

Kohinoor Foods Ltd.

Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in. Visit us at: www.kohinoorfoods.in, CIN - L52110HR1989PLC070351

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2024

Sl. No.	Particulars	(Rupees in Lacs Except earnings per Share Data)					
		Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Year Ended 30.06.2023 Audited	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Year Ended 30.06.2023 Audited	Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited	Year Ended 30.06.2023 Audited
1	Total Income from Operations (net)	2400	2562	9573	2400	2562	9573
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-248	-104	-886	-248	-104	-888
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-250	-104	-894	-250	-104	-897
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-250	-104	-453	-250	-104	-455
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-250	-104	-468	-250	-104	-471
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	3707	3707	3707	3707	3707	3707
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	-0.67	-0.28	-1.26	-0.67	-0.28	-1.27
1. Basic:		-0.67	-0.28	-1.26	-0.67	-0.28	-1.27
2. Diluted:		-0.67	-0.28	-1.26	-0.67	-0.28	-1.27

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results ended on 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the BSE Limited (BSE) website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.kohinoorfoods.in).

For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
(Satnam Arora)
Jt. Managing Director
(DIN:00010667)

Place: Faridabad
Date: 13th August, 2024

NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025
Tel. No. : 011-49872442,48, E-mail: cs@modisteel.net, CIN: L74899DL1987PLC026617

Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

Particulars	(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated)			
	Quarter Ended		Year Ended	
	30-06-2024 Un-audited	31-03-2024 Audited	30-06-2023 Un-audited	31-03-2024 Audited
Total income from operations	314.95	484.45	367.13	1528.46
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	22.37	76.04	39.65	155.41
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and after Exceptional)	22.37	76.04	39.65	319.37
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional)	16.96	64.31	29.89	300.03
Equity Share Capital	474.14	467.68	467.68	467.68
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				2977.90
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
- Basic (In Rs.):	0.38	1.37	0.64	6.41
- Diluted (In Rs.):	0.31	1.16	0.54	5.42

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com).

For National General Industries Limited
Sd/-
Pawan Kumar Modi
Managing Director
(DIN: 00051679)

Place: New Delhi
Date: 13-08-2024

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited
(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590.
E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND

Resignation of Mr. Nimish Vora from the post of Chief Human Resource Officer (CHRO) of PPFAS Asset Management Private Limited

Investors/ Unitholders of PPFAS Mutual Fund are hereby informed that Mr. Nimish Vora, has resigned from the post of CHRO of PPFAS Asset Management Private Limited (PPFAS AMC) with effect from August 09, 2024. Accordingly, all references of Mr. Nimish Vora in Statement of Additional Information ("SAI") shall stand deleted.

For PPFAS Asset Management Private Limited
(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai
Date: August 13, 2024
Sd/-
Director

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



1st floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099.

EXPRESSION OF INTEREST FOR VARIOUS SLA BASED CONTRACTS AT CSMIA, MUMBAI

Mumbai International Airport Limited (MIAL), the concessionaire of CSMIA, Mumbai is inviting interested parties to submit their expression of interest for below works:

- O&M Contract for BHS at T₁ & T₂.
- Trolley Handling O&M and Loaders, Porters and Drivers.
- Housekeeping for various areas like Terminal Buildings, Landside, Airside & other Misc services.
- Security & Passenger Handling Services.
- O&M of Various makes of Passenger Boarding Bridges & Maintenance of Aerial Work Platforms.
- General Technical Services.

Interested parties are requested to visit the website, www.csmaiaadaniairports.com and obtain the EOI documents. EOI shall be available for download from 14th August 2024 till 5:00 pm IST on 23rd August 2024.

INTERWORLD DIGITAL LIMITED

CIN: L72900DL1995PLC067808
Regd. Off: 701, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone: 911-4371944-45; Fax: 011-43571947; Website: www.interworlddigital.in, Email: interworlddigital@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2024

Sl. No.	Particulars	(Rs. in Lacs)		
		Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
		1	Total income from operations (net)	0.97
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	(4.71)	(3.50)	(19.76)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(4.71)	(3.50)	(19.76)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(4.71)	(3.50)	(19.76)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	(4.71)	(3.50)	(19.76)
6	Equity Share Capital	4783.77	4783.77	4783.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	3572.81
8	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operation)			
Basic:		0.00	0.00	0.00
Diluted:		0.00	0.00	0.00

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024, filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.interworlddigital.in

For and on behalf of Board Directors of Interworld Digital Limited
Sd/-
Peeyush Kumar Aggarwal
Chairman
Place: New Delhi
Date: 13th August, 2024
DIN: 00090423

GOALPOST INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74110DL1982PLC013956
Regd Off: 324A, 11th Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Website: goalpostindia.in | Email: guimoharlimited@gmail.com | Tel.: +91-9810260127

EXTRACTS OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

Sl. No.	Particulars	(₹ In Lakh)			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2024 (Un-Audited)	31/03/2024 (Audited)	30/06/2023 (Un-Audited)	31/03/2024 (Audited)
1	Total income from operations	0.63	25.60	1.81	705.42
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.14)	15.22	(6.22)	4.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	(3.14)	15.22	(6.22)	4.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	(3.14)	15.82	(6.20)	4.93
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(3.14)	15.82	(6.20)	4.93
6	Equity Share Capital	24.50	24.50	24.50	24.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	1112.75	68.76	68.76	68.76
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:		(1.28)	6.46	(2.53)	2.01
2. Diluted:		(1.28)	6.46	(2.53)	2.01

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.goalpostindia.in) and website of the stock Exchange(s) (www.cse-india.com) and (www.nseindia.com).
2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 13th August, 2024.
3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-AS rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of Goalpost Industries Limited
Sd/-
Pawan Kumar Mittal (Director)
Place: New Delhi
Date: 13.08.2024
DIN: 00742625

Reg. Office Address:
Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005G0132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in Tel: 011-230621325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2024

Particulars	(₹ in Lakhs)			
	Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2024 (unaudited)	31.03.2024 (audited)	30.06.2023 (unaudited)	31.03.2024 (audited)
Total Income from operations (Net)	19.68	13.46	12.47	52.28
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (before Exceptional items)	(209.84)	(681.33)	(176.71)	(1227.00)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (after Exceptional items)	(209.84)	(681.33)	(176.71)	(1227.00)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities after Tax (after Exceptional items)	(209.84)	(436.18)	(176.71)	(981.85)
Total Comprehensive income after taxes and Non controlling Interest	(209.84)	(436.18)	(176.71)	(981.85)
Paid up Equity Share Capital	28500	28500	28500	28500
Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-
Earnings per share (from continuing and discontinued operations)				
Basic	(0.07)	(0.15)	(0.06)	(0.34)
Diluted	(0.07)	(0.15)	(0.06)	(0.34)

Note:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13.08.2024.
2. Comparative figures have been regrouped / recasted/ rearranged wherever deemed necessary to conform to current period classification and negative figures have been shown in bracket.
3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com/) and Company's website (www.hpil.co.in).

For and on behalf of Hemisphere Properties India Limited

Place : New Delhi
Date : August 13, 2024

Sd/-
(D. Thara)
(Chairperson & Managing Director)



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Corporate Identity Number: L74899DL1994PLC059009

Registered Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

Corporate Office: 60, Khatau Building, Gr. Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: 022 - 6216 6999 | Fax: 22630434 | Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in

Extract of the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30th June 2024

Sr. No.	Particulars	(₹ in Lakhs)			
		QUARTER ENDED		QUARTER ENDED	
		30.06.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.06.2024 Unaudited	30.06.2023 Unaudited
1	Total income	220.09	139.78	1210.14	1223.36
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	114.22	78.38	714.12	108.52
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	114.22	78.38	714.12	108.52
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	85.08	58.31	610.57	81.41
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	85.08	58.31	647.44	1294.23
6	Equity Share Capital	1168.20	1168.20	1168.20	1168.20
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Financial Result of 31.03.2024)	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:		0.73	0.50	0.23	0.70
2. Diluted:		0.73	0.50	0.23	0.70

Note:
a) The figures for the corresponding previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.
b) The Company has only one business one segment in which it operates viz. Financial Services and related activities.
c) These results have been subjected to Limited review by the Statutory Auditors.
d) The above result for the quarter ended 30th June 2024 have been reviewed by the audit committee meeting held on 12th August, 2024 and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2024.
e) The aforesaid Quarterly Financial Results are also being disseminated on the website of the Company i.e. (<http://afsl.co.in/investor-relation.html>).

For Aryaman Financial Services Limited

Date : August 12, 2024
Place : Mumbai

Sd/-
Shripal Shah
Whole Time Director

SINDU VALLEY TECHNOLOGIES LIMITED

("SVTL"/"TARGET COMPANY"/"TC")

(Corporate Identification No. L21000KA1976PLC173212)

Registered Office: No. 3, 2nd Floor, Dr TCM Royan Road, Opp Ayyanar Temple, Chickpet, Bangalore, Bangalore South, Karnataka, India, 560053;

Phone No.: 080-26706716; Email id: sinduvalley76@gmail.com; Website: www.sinduvalley.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Sindu Valley Technologies Limited ("SVTL" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	13.08.2024
Name of the Target Company	Sindu Valley Technologies Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 1,82,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirers, at a price of Rs. 25.00/- per Equity share payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Name(s) of the Acquirers	Mr. Chirag Deepak Dediya (Acquirer-1), Mr. Arvind Awadh Nath Sharma (Acquirer-2) And Mrs. Manisha Arvind Sharma (Acquirer-3) (Acquirer-1, Acquirer-2 and Acquirer-3 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers")
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Chairman: Mrs. Kavita Akshay Chhajjer Member: Mr. Samrathdan Zula Member: Mr. Kazim Raza Khan
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract relationship), if any	IDC Members are the Independent Directors of the Target Company. Neither Chairman nor Member of IDC holds any equity shares in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares/ other securities of the Target Company.
IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	Not Applicable
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	The IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
Summary of reasons for recommendation	IDC recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirers as the Offer price of Rs. 25.00/- per fully paid -up equity share is fair and reasonable based on the following reasons: 1. The Offer price appears to be reasonable considering negative book value & negative profitability of the Company. 2. The offer price of Rs. 25.00/- per fully paid -up equity share offered by the Acquirers is more than to price paid by Acquirers in SPA to Seller. 3. The equity shares of the Target Company are infrequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. 4. The offer price of Rs. 25.00/- per fully paid -up equity share offered by the Acquirers is more than fair value of equity share of the Target Company which is Rs. 18.84/- (Rupees Eighteen and Paise Eighty Four only) as certified by Rashmi Shah, Independent Valuer. (Membership No. 123478), Proprietor of R V Shah & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 133958W), having their office situated at 108, Sujata, Station Road, Malad East, Mumbai - 400 097; Tel.No. +91-98202 99754; Email: rashmi@rvsca.com , vide valuation certificate dated May 07, 2024. (UDIN: 24123478BKAKXH8450) Keeping in view above facts IDC is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified.
Details of Independent Advisors, if any	None
Any other matter to be highlighted	No

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information

SMART FINSEC LIMITED

REGD. OFFICE : F-88, WEST DISTRICT CENTRE, SHIVAJI ENCLAVE,
OPP. TDI PARAGON MALL, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110027
CIN : L74899DL1995PLC063562 Phone-011-45004425
Website: www.smartfinsec.com, Email:smartfinsec@gmail.com

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2024

(Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		June 30, 2024 Unaudited	June 30, 2023 Unaudited	Mar 31, 2024 Audited	
1	Total income from operations	61.41	514.24	83.56	2,507.10
2	Profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	38.45	-12.35	66.67	308.74
3	Profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	38.45	-12.35	66.67	308.74
4	Net profit / (loss) for the period after tax	30.02	-12.35	53.02	236.52
5	Total comprehensive income for the period	30.02	-12.35	53.02	236.52
6	Paid-up equity share capital (Face value per share Rs.1/-each)	300.00	300.00	300.00	300.00
7	Earnings per share				
a)	Basic (Rs. per share)	0.1	-0.04	0.18	0.79
b)	Diluted (Rs. per share)	0.1	-0.04	0.18	0.79

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on Aug 13, 2024.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year to date Financial Results are available on the website BSE Limited at www.bseindia.com and on Company's website www.smartfinsec.com.

For and on behalf of Smart Finsec Limited

Sd/-

Arun Khara

Managing Director

DIN-00055694

Place: New Delhi

Date: 13 Aug 2024

अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन संख्या: L65100DL1984PLC018748, ईमेल- abhinavleasefintd@gmail.com
वेबसाइट: www.abhinavleasefintd.in फोन: 011-42770132

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही परिणाम

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.2024 अलेखणीय	31.03.2024 लेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखणीय	
1	परिचालन से कुल आय	1843.07	1,384.35	535.39	3,384.46
2	कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, असाधारण और धा अपसाधारण मदों के बाद)	25.51	(99.28)	2.91	22.28
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और धा अपसाधारण मदों के बाद)	25.51	(99.28)	2.91	22.28
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और धा अपसाधारण मदों के बाद)	25.51	(104.60)	2.91	16.96
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	25.51	(104.60)	2.91	16.96
6	इक्विटी शेयर पूंजी	499.8	499.80	499.80	499.80
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				
8	प्रति शेयर आय (₹.1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) (जारी और बंद बाधाओं के लिए)	0.05	-0.21	0.01	0.034
a)	मूल	0.05	-0.21	0.01	0.034
b)	डील्टेड	0.05	-0.21	0.01	0.034

टिप्पणी - उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायरे 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.abhinavleasefintd.in पर उपलब्ध है।

कृते अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता/-

मनता अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12/08/2024

सरनिमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

508, 5वीं मंजिल, अरुणाचल विडिंग, बाराखला रोड, नई दिल्ली - 110001
ईमेल: sarnimalinvesttd@gmail.com, वेबसाइट: www.sarnimal.com
सीआईएन: L65100DL1981PLC012431 फोन: 011-43592522

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखणीय वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	प्रति शेयर इक्विटी डेटा को छोड़कर, लाखों में			
		30.06.2024 (अलेखणीय)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखणीय)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	14.57	26.09	3.80	41.98
2	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण / असाधारण मदों के बाद)	0.59	34.20	2.80	5.50
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण / असाधारण मदों के बाद)	0.59	34.20	2.80	5.50
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण / असाधारण मदों के बाद)	0.59	33.69	2.80	4.99
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि के लिए लाभ / हानि और अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	0.59	33.69	2.80	4.99
6	इक्विटी शेयर पूंजी	449.8	449.8	449.8	449.8
7	रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य 1/- ₹) (जारी और बंद परिचालन के लिए)	0.01	0.06	0.01	0.011
1.	मूल	0.01	0.06	0.01	0.011
2.	तल	0.001	0.06	0.01	0.011

उपरोक्त 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.mse.in और कंपनी की वेबसाइट www.sarnimal.com पर उपलब्ध है।

सरनिमल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

मिनिम अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 12/08/2024

आयुष वेलनेस लिमिटेड

(पूर्व में आयुष फूड एंड हेल्थ लिमिटेड लिमिटेड)

CIN: L01122DL1984PLC018307

पंजी. कार्यालय : 55, 2वां तल, लेन 2, गेट 2वां मार्ग, सेक्टर 13, गुरुग्राम, गांधी नगर रोड, गुरुग्राम
फोन : 918448693031, ईमेल : cs@ayushwellness.com, वेबसाइट: www.ayushwellness.com

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		30.06.2024 (अलेखणीय)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखणीय)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	111055.601	8392.469	1735.000	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण मदों के बाद)	2549.150	5923.247	898.989	
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	2549.150	5923.247	898.989	
4	कर से पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	2549.150	5718.842	898.989	
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹.10/- प्रति शेयर)	32450	32450	32450	
6	अवधि प्रति शेयर आय	0.786	1.762	0.277	
7	मूल तल	0.786	1.762	0.277	

टिप्पणी: उपरोक्त वित्तीय परिणामों का अंश 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.ayushwellness.com पर उपलब्ध है।

कृते आयुष वेलनेस लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/-
मनता अग्रवाल
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12/08/2024

हस्ता/-

मनता अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

DIN: 07087891

KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED

Regd. Office: 16, Community Centre, 1st Floor, Saket, New Delhi-110017
Tel: 011-26850004, Fax: 011-41664840, E-Mail: kfb@airtelmail.in, Website: www.kothariyeast.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

Sr. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			
		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1	Total income from operations	2,641.46	3,200.22	2,562.37	10,892.28
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	95.92	187.22	(271.05)	(392.53)
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	95.92	187.22	(271.05)	(392.53)
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	109.78	86.96	(269.16)	(491.15)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	109.09	78.01	(267.13)	(493.99)
6	Equity Share Capital	1,500	1,500	1,500	1,500
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	4,090.68
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
1. Basic :		0.73	0.58	(1.79)	(3.27)
2. Diluted :		0.73	0.58	(1.79)	(3.27)

NOTE:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LDR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's website (www.kothariyeast.in) and the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

For and on Behalf of the Board
Sd/-
Pramod Kumar Kothari
(Chairman & Managing Director)

Place : New Delhi

Date : 13.08.2024

For and on Behalf of the Board

Sd/-

Pramod Kumar Kothari

(Chairman & Managing Director)

Date : 13.08.2024

Mahaan Foods Limited

Regd. Office: Office No.406, 4th Floor, Worldmark 2, Asset No.8, Aerocity Hospitality District, New Delhi-110037
Tel: 011-43107200, E-mail: csmfi@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com
CIN : L35419DL1987PLC350285

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30-06-2024

S. No.	Particulars	Quarter Ended			
		30.06.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	30.06.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited
1.	Total income from operations	15.18	52.97	10.44	125.08
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6.68	42.44	0.38	88.43
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.68	42.44	0.38	88.43
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.02	31.63	0.28	66.31
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5.02	31.63	0.28	66.31
6.	Equity Share Capital	350.07	350.07	350.07	350.07
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1598.18	1531.87
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic :		0.14	0.90	0.01	1.89
2. Diluted :		0.14	0.90	0.01	1.89

Notes:
• The above Financial Results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, August 13, 2024. The Statutory Auditors have expressed their unmodified opinion on these results.
• The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time). The full format of the audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 is available on the Company's website (www.mahaanfoods.com) and on the website of the stock exchange where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com).
• Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged/reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting requirements.

Place: New Delhi

Date: August 13, 2024

For and on Behalf of the Board

Sd/-

Sanjeev Goyal

Managing Director & Chairman

DIN: 00221099

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

Date: August 13, 2024

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN: L21015UP1980PLC005138)

REGD. OFFICE: VILL. BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT-MAWANA ROAD, P.O. SANDHAN, MAWANA, UP-250 401, Tel: 01233-271137, 271515, 274324
website: www.sangalpapers.com, e-mail: accounts@sangalpapers.com,

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024 (₹. In Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		30.06.2024 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total income from operations	4260.85	19033.87	4957.10
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	91.79	346.82	126.74
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	91.79	346.82	126.74
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	66.64	247.07	91.17
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	66.63	242.35	